

भाणित किया जाता है कि इस माप पुस्तक में कुल 100
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ हैं। जो श्री. राजीव. कुमार दास
सहायक अभियंता, ग्रा०का०वि०कार्य अवर प्रमण्डल, ~~उ.प्र.राज~~
के नाम से निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रा०का०वि०कार्य
अ.प्र.

2714

Sch. XLV—Form No. 134

RWD. Kishangaraj-2 DIVISION
RWD. Thakurganj SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1547

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

FDR part 'A'

Name of work— 1
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents area
	No.	L.	B.	D.	
N/W -	PART - 1A (FDR) Toy Mirbhitta to Telibhitta (Track-16)				
N/Road -	Toy mirbhitta to Telibhitta (Track-16)				
Agency -	Departmental work.				
Length -	7.273 km				
Block -	Thakurgaon				
A.O.P. Entry -					
	Recorl Measurement				
(1)	p/v band filling				
	all cell				
CH-500M					
L/S	1x	11.00	$\frac{1.54+1.64}{2}$	\times	
			$\frac{1.80+2.40}{2}$	=	59.85
R/S	1x	30.0 + 6.0	$\times \frac{1.125+3.925}{2}$		
			$\times \frac{2.80+3.10+2.50}{2}$	=	254.5
	1x	10.00			
P/S	1x	19.00	$\times \frac{1.913+3.75}{2}$		
			$\times \frac{1.80+1.90+1.80}{3}$	=	98.20
	1x	7.0	$\times \frac{1.50+2.913}{2}$		
			$\times \frac{1.80+1.90+1.60}{3}$	=	25.15
	1x	29.0	$\times \frac{1.263+3.863}{2}$		
			$\times \frac{2.30+2.80+2.20}{3}$	=	193.58

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
CH-1100					BF: 631.72
		$15.02 \times 1.283 + 3.983$			
		$1 \times 15.50 \times$			
		$\times \frac{2.50 + 2.90 + 2.30}{2}$			110.19
					= 741.96
					4^3
(2)	Plv and ceiling				
	Bricks Batt & ceiling				
	ceiling				
45	$1 \times 11.00 \times$	$\frac{1.55 + 4.35}{2}$			
		$\times \frac{1.20 + 1.60 + 1.40}{3}$			= 45.43
85	$1 \times 30.0 + 6.0 \times$	$\frac{1.30 + 4.50}{2}$			
		$\times \frac{1.35 + 1.25 + 1.60}{2}$			= 168.02
45	$1 \times 7.00 \times$	$\frac{1.15 + 2.70}{2}$			
		$\times \frac{1.20 + 1.90 + 1.60}{3}$			= 24.20
45	$1 \times 29.0 \times$	$\frac{1.15 + 3.83}{2}$			
		$\times \frac{1.80 + 2.40 + 1.90}{2}$			= 127.75
85	$1 \times 19.0 \times$	$\frac{1.80 + 5.0}{2} \times$			
		$\times \frac{1.30 + 1.80 + 1.65}{2}$			= 103.36
	$1 \times 15.50 \times$	$\frac{1.25 + 3.65}{2}$			
		$\times \frac{0.50 + 1.90 + 1.20}{2}$			= 45.57 4^3
					= 511.33 4^3
(3)	Plv Sand filling				
	in cement bags				
	with all up				
	$1 \times 11.0 \times$	$\frac{0.50 + 1.60 + 1.40 + 0.60}{4}$			
		$\times \frac{2.10 + 1.80 + 1.30}{2}$			= 19.543

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(3) P/v filling in sand					
Bags with all ceep					
vide TMB no- 02/03					
rate (3) = 2961.0 Bgs					
CB = 28.03/Bgs.					
					B = 112607 =
					B = 1603225
					B = 1603250
Add. GST 12.1.					B = 192400
Add. L.C. 1.1.					B = 160000
Add. S.F. 101.					B = 65600
					B = 1877200

~~total~~
20/10/21
AE

~~Banner~~
20/10/21
JE

~~(3) 28.03~~
16/12/21